

Neh

Chapter 7

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

הַשְׁוֹעֲרִים	וַיִּפְקְדוּ	הַדְּלָתוֹת	וְאֶעֱמִיד	הַחֹמָה	נִבְנְתָה	כַּאֲשֶׁר	וַיְהִי	1
द्वारपाल	और-नियुक्त-किए-गए	दरवाजे	और-मैंने-लटकाए	शहरपनाह	बनाई-गई	जब	और-हुआ	
H7778			H5975	H2346	H1129		H1961	
						וְהָלְוִים:	וְהַמְשֻׁרָרִים	
						और-लेवीय	और-गायक	
						H3881	H7891	

इस प्रकार हमने दीवार बनाने का काम पूरा किया। फिर हमने द्वार पर दरवाजे लगाये। फिर हमने उस द्वार के पहरेदारों, मन्दिर के गायकों तथा लेवियों को चुना जो मन्दिर में गीत गाते और याजकों की मदद करते थे।

כִּי	יְרוּשָׁלַם	עַל-	הַבִּירָה	שָׂר	חֲנַנְיָה	וְאֶת-	אָחִי	חֲנַנִי	אֶת-	וְאֶזְרָא	2
क्योंकि	यरूशलेम	के-उपर	गढ़-का	अधिकारी	हनन्याह	और	मेरे-भाई	हनानी	को	और-मैंने-आज़ा-दी	
H3389			H1002	H8269		H0853	H0251	H2607	H0853	H6680	
				מְרַבִּים:	הַאֱלֹהִים	אֶת-	וַיְרָא	אֱמֻת	כְּאִישׁ	הוּא	
				बहुतों-से-अधिक	परमेश्वर	से	और-डरता-था	विश्वासयोग्य	मनुष्य	वह	
					H0430	H0853	H3372	H0571	H0376	H1931	

इसके बाद मैंने अपने भाई हनानी को यरूशलेम का हाकिम नियुक्त कर दिया। मैंने हनन्याह नाम के एक और व्यक्ति को चुना और उसे किलेदार नियुक्त कर दिया। मैंने हनानी को इसलिए चुना था कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था तथा वह परमेश्वर से आम लोगों से कहीं अधिक डरता था।

הַשֶּׁמֶשׁ	חָם	עַד-	יְרוּשָׁלַם	שָׁעָרַי	יִפְתְּחוּ	לֹא	לָהֶם	(וַיֹּאמֶר)	וַיֹּאמֶר	3
सूर्य	गर्म	जब-तक	यरूशलेम-के	फाटक	खोले-जाएं	नहीं	उनसे	और-मैंने-कहा	और-उसने-कहा	
H8121	H2527	H5704	H3389	H8179		H3808		H0559	H0559	
יְשֻׁבֵי	מִשְׁמֵרוֹת	וְהַעֲמִיד	וְאֶחָיו	הַדְּלָתוֹת	יָגִפוּ	עֲמֻדָיִם	הֵם	וְעַד		
निवासियों-में-से	पहरेदार	और-नियुक्त-करो	और-चिटकनी-लगाएं	दरवाजे	बंद-करें	खड़े-हों	वे	और-जब-तक		
H3427	H4931	H5975	H0270		H1479	H5975	H1992	H5704		
				בֵּיתוֹ:	נֶגֶד	וְאִישׁ	בְּמִשְׁמָרוֹ	אֶשׁ	יְרוּשָׁלַם	
				अपने-घर-के	सामने	और-दूसरा	अपने-पहरे-पर	एक	यरूशलेम-के	
					H5048	H0376	H4929	H0376	H3389	

तब मैंने हनानी और हनन्याह से कहा, “तुम्हें हर दिन यरूशलेम का द्वार खोलने से पहले घंटों सूर्य चढ़ जाने के बाद तक इंतजार करते रहना चाहिए और सूर्य छुपने से पहले ही तुम्हें दरवाजे बन्द करके उन पर ताला लगा देना चाहिए। यरूशलेम में रहने वाले लोगों में से तुम्हें कुछ और लोग चुनने चाहिए और उन्हें नगर की रक्षा करने के लिए विशेष स्थानों पर नियुक्त करो तथा कुछ लोगों को उनके घरों के पास ही पहरे पर लगा दो।”

בְּנוֹיָם:	בָּתָּיִם	וְאִין	בְּתוֹכָהּ	מֵעַט	וְהָעַם	וְגִדְלוֹתָהּ	יָרִים	רַחֲבֹתָהּ	וְהָעִיר	4
बने-थे	घर	और-नहीं	उसमें	थोड़े	परन्तु-लोग	और-विशाल	बड़ा	बड़ा	और-नगर	
H1129		H0369	H8432	H4592			H3027	H7342		

अब देखो, वह एक बहुत बड़ा नगर था जहाँ पर्याप्त स्थान था। किन्तु उसमें लोग बहुत कम थे तथा मकान अभी तक फिर से नहीं बनाये गये थे।

וְאֵת־ और	הַסִּגְנִים हाकिमों	וְאֵת־ और	הַחֲרָיִם प्रधानों	אֶת־ को	וְאֶקְבְּצָהּ और-इकट्ठा-करने-को	לְבִי मेरे-हृदय	אֶל־ में	אֶל־הוֹי मेरे-परमेश्वर-ने	וַיִּזְנוּ और-डाला
H0853	H5461	H0853	H2715	H0853	H6908		H0413	H0430	H5414

וְאֶמְצָא और-पाया	בְּרֵאשֹׁנָה पहले	הָעוֹלָמִים जो-आए-थे	הַיְחָשׁ वंशावली-की	סֵפֶר पुस्तक	וְאֶמְצָא और-मुझे-मिली	לְהַתְּנִחַשׁ वंशावली-के-अनुसार-नाम-लिखाने-को	הָעָם लोगों
H4672	H7223	H5927	H3188		H4672	H3187	

כְּתוּב :
उसमें लिखा-हुआ
[H3789](#)

इसलिए मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात पैदा की कि मैं सभी लोगों की एक सभा बुलाऊँ सो मैंने सभी महत्त्वपूर्ण लोगों को, हाकिमों को तथा सर्वसाधारण को एक साथ बुलाया। मैंने यह काम इसलिए किया था कि मैं उन सभी परिवारों की एक सूची तैयार कर सकूँ। मुझे ऐसे लोगों की पारिवारिक सूचियाँ मिलीं जो दासता से सबसे पहले छूटने वालों में से थे। वहाँ जो लिखा हुआ मुझे मिला, वह इस प्रकार है।

מֶלֶךְ राजा	נְבוּכַדְנֶצְצַר नबूकदनेस्सर	הַגּוֹלָה ले-गया-था	אֲשֶׁר जिन्हें	הַגּוֹלָה जो-ले-जाए-गए-थे	מִשְׁבִּי बंधुआई-से	הָעָלִים जो-लौटे	הַמְּדִינָה प्रात-के	בְּנוֹ पुत्र	אֶלֶּהָ ये
H4428	H5019	H1540		H1473		H5927	H4082		H0428

בְּבֵל
बाबेल-का
וַיִּשְׁבּוּ
और-लौटे
לְיְרוּשָׁלַם
यरूशलेम-को
וְלַיהוּדָה
और-यहूदा-को
אִישׁ
प्रत्येक
לְעִירוֹ
अपने-नगर-को
[H0376](#)
[H3063](#)
[H3389](#)
[H7725](#)
[H0894](#)

ये इस क्षेत्र के वे लोग हैं जो दासत्व से मुक्त होकर लौटे (बाबेल का राजा, नबूकदनेस्सर इन लोगों को बन्दी बनाकर ले गया था। ये लोग यरूशलेम और यहूदा को लौटे। हर व्यक्ति अपने-अपने नगर में चला गया।

בְּנוֹי बिगवै	מִסְפֵּרֵת मिस्पेरेत	בִּלְשָׁן बिल्शान	מֶרְדֵּכַי मार्दकै	נְחֻמָּנִי नहमानी	רַעְמְיָה राम्याह	עֲזַרְיָה अजर्याह	נְחֻמְיָה नेहम्याह	יֵשׁוּעַ येशूआ	זְרַבְבָּדֶל जरुब्बाबेल	עִם־ साथ	הַבָּאִים जो-आए
H0902	H4559	H1114	H4782	H5167	H7485	H5838	H5166	H3442	H2216		H0935

נְחֻם
नेहूम
בְּעֵנָה
और-बानाह
מִסְפָּר
गिनती
אֲנָשִׁי
पुरुषों-की
עָם
लोगों
יִשְׂרָאֵל :
इसाएल-के
[H3478](#)
[H0376](#)
[H4557](#)
[H1196](#)
[H5149](#)

ये लोग जरुब्बाबेल, येशू, नेहमायाह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकै, बिल्शान, मिस्पेरेत, बिगवै, नेहूम और बाना के साथ लौटे थे।) इसाएल के लोगों की सूची:

בְּנוֹ पुत्र	פְּרֹשׁ परोश-के	אַלְפִּים दो-हजार	מֵאָה एक-सौ	וְשִׁבְעִים और-सत्तर	וּשְׁנָיִם : और-दो
	H6551	H0505	H3967	H7657	H8147

पॅरोश के वंशज#2,172

בְּנוֹ पुत्र	שְׁפֹטָה शपत्याह-के	שְׁלֹשׁ तीन	מֵאוֹת सौ	שִׁבְעִים सत्तर	וּשְׁנָיִם : और-दो
	H8203	H7969	H3967	H7657	H8147

सपत्याह के वंशज#372

בְּנוֹ पुत्र	אַרְחָ आरह-के	שָׁשׁ छह	מֵאוֹת सौ	חֲמִשִּׁים पचास	וּשְׁנָיִם : और-दो
	H0733	H8337	H3967	H2572	H8147

आरह के वंशज#652

בְּנֵי פַחַת	מֵאֲבָב	לְבָנֵי יֵשׁוּעַ	וְיֹאבָב	אֲלָפִים	וְשִׁמְנָה	מֵאוֹת	שִׁמְנָה	עָשָׂר	11
के	पहत-मोआब	पुत्रों-के	और-योआब	दो-हजार	और-आठ	सौ	आठ	और-दस	
	H6355	H6355	H3442	H0505	H8083	H3967	H8083	H6240	

ס
ס

पहलोआब के वंशज येशू और योआब के परिवार की संतानें#2,818

בְּנֵי עֵילָם	אֶלְרָף	מֵאוֹתוֹם	חַמְשִׁים	וְאַרְבָּעָה	ס	12
के	एलाम-के	दो-सौ	पचास	और-चार	और-चार	
	H0505	H3967	H2572	H0702	H0702	

एलाम के वंशज#1,254

בְּנֵי זַחֲוָא	שִׁמְנָה	מֵאוֹת	אַרְבָּעִים	וַחֲמִשָּׁה	ס	13
के	जत्तू-के	आठ	चालीस	और-पांच	और-पांच	
	H2240	H8083	H3967	H0705	H2568	

जत्तू के वंशज#845

בְּנֵי זְכִי	שִׁבְעָה	מֵאוֹת	וְשָׁשִׁים	ס	14
के	जक्के-के	सात	और-साठ	और-साठ	
	H2140	H7651	H3967	H8346	

जक्के के वंशज#760

בְּנֵי בִצְרִי	שָׁשִׁים	מֵאוֹת	אַרְבָּעִים	וְשִׁמְנָה	ס	15
के	बिच्रूई-के	छह	चालीस	और-आठ	और-आठ	
	H1131	H8337	H3967	H8083	H8083	

बिच्रूई के वंशज#648

בְּנֵי בִבְי	שָׁשִׁים	מֵאוֹת	עָשָׂרִים	וְשִׁמְנָה	ס	16
के	बेबै-के	छह	बीस	और-आठ	और-आठ	
	H0893	H8337	H3967	H6242	H8083	

बेबै के वंशज#628

בְּנֵי עֲזָרָד	אֲלָפִים	שְׁלֹשׁ	מֵאוֹת	עָשָׂרִים	וְשָׁנַיִם	ס	17
के	अजगाद-के	दो-हजार	तीन	बीस	और-दो	और-दो	
	H5803	H0505	H7969	H3967	H6242	H8147	

अजगाद की संतानें#2,322

בְּנֵי אֲדִינְקָם	שָׁשִׁים	מֵאוֹת	שָׁשִׁים	וְשִׁבְעָה	ס	18
के	—	—	—	और-सात	और-सात	
	H0140	H8337	H3967	H8346	H7651	

अदोनीकाम के वंशज#667

בְּנֵי בִּגְוַי	אֲלָפִים	שָׁשִׁים	וְשִׁבְעָה	ס	19
के	बिगवै-के	दो-हजार	साठ	और-सात	और-सात
	H0902	H0505	H8346	H7651	

बिगवै के वंशज#2,067

בְּנֵי עֲדִיָן	שָׁשִׁים	מֵאוֹת	חַמְשִׁים	וַחֲמִשָּׁה	ס	20
के	आदीन-के	छह	पचास	और-पांच	और-पांच	
	H5720	H8337	H3967	H2568	H2568	

आदीन के वंशज#655

21
בְּנֵי אֶטֶר לְחֻזְקָה תְּשַׁעִּים וּשְׁמֹנֶה :
पुत्र आतेर-के हिज्जिक्याह-के नब्बे और-आठ
[H8083](#) [H8673](#) [H2396](#) [H0333](#)

आतेर के वंशज हिजीक्याह के परिवार से#98

22
בְּנֵי קָשֶׁם שְׁלֹשׁ מֵאוֹת עֶשְׂרִים וּשְׁמֹנֶה :
पुत्र हशूम-के तीन सौ बीस और-आठ
[H8083](#) [H6242](#) [H3967](#) [H7969](#) [H2828](#)

हाशम के वंशज#328

23
בְּנֵי בְּצִי שְׁלֹשׁ מֵאוֹת עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה :
पुत्र बेसै-के तीन सौ बीस और-चार
[H0702](#) [H6242](#) [H3967](#) [H7969](#) [H1209](#)

बेसै के वंशज#324

24
בְּנֵי קָרִיף מֵאָה שְׁנַיִם עָשָׂר :
पुत्र हारीफ-के एक-सौ दो और-दस
[H6240](#) [H8147](#) [H3967](#) [H2756](#)

हारीफ के वंशज#112

25
בְּנֵי גִבּוֹן גִּבּוֹן תְּשַׁעִּים וַחֲמִשָּׁה :
पुत्र गिबोन-के नब्बे और-पांच
[H2568](#) [H8673](#) [H1391](#)

गिबोन के वंशज#95

26
אֲנָשֵׁי בֵּית-לְחָם וְנִטְפָּה מֵאָה שְׁמֹנִים וּשְׁמֹנֶה :
पुरुष बैतलहम-के और-नतोपाह एक-सौ अस्सी और-आठ
[H8083](#) [H8084](#) [H3967](#) [H5199](#) [H1035](#) [H0376](#)

बेतलेहम और नतोपा नगरों के लोग#188

27
אֲנָשֵׁי עֲנָתוֹת מֵאָה עֶשְׂרִים וּשְׁמֹנֶה :
पुरुष अनातोत-के एक-सौ बीस और-आठ
[H8083](#) [H6242](#) [H3967](#) [H6068](#) [H0376](#)

अनातोत नगर के लोग#128

28
אֲנָשֵׁי בֵּית-עֲזְמוֹת אַרְבָּעִים וּשְׁנַיִם :
पुरुष बैत-अज्मावेत-के चालीस और-दो
[H8147](#) [H0705](#) [H1041](#) [H0376](#)

बेतजमावत नगर के लोग#42

29
אֲנָשֵׁי קָרִית יְעָרִים כְּפִירָה וּבְאֵרוֹת שֶׁבַע מֵאוֹת אַרְבָּעִים וּשְׁלֹשָׁה :
पुरुष के किर्यत-यारीम कफीराह और-बेरोत सात सौ चालीस और-तीन
[H7969](#) [H0705](#) [H3967](#) [H7651](#) [H0881](#) [H3716](#) [H7157](#) [H7157](#) [H0376](#)

किर्यत्यारीम, कपीर तथा बेरोत नगरों के लोग#743

30
אֲנָשֵׁי הָרְמָה וְנֹבַע שָׁשׁ מֵאוֹת עֶשְׂרִים וְאַחַד :
पुरुष रामाह-के और-गेबा छह सौ बीस और-एक
[H0259](#) [H6242](#) [H3967](#) [H8337](#) [H1387](#) [H7414](#) [H0376](#)

रामा और गेबा नगरों के लोग#621

31	אָנְשִׁי	מִכְמָס	מָאָה	וְעֶשְׂרִים	וּשְׁנָיִם :	ס
	पुरुष	मिकमास-के	एक-सौ	और-बीस	और-दो	स
	H0376	H4363	H3967	H6242	H8147	

मिकपास नगर के लोग#122

32	אָנְשִׁי	בֵּית-אֵל	וְהָעִיר	מָאָה	עֶשְׂרִים	וּשְׁלֹשָׁה :	ס
	पुरुष	बैतएल-के	और-आई	एक-सौ	बीस	और-तीन	स
	H0376	H1008	H5857	H3967	H6242	H7969	

बैतेल और ऐ नगर के लोग#123

33	אָנְשִׁי	נָבוּ	אֲחֵר	חֲמִשִּׁים	וּשְׁנָיִם :	ס
	—	—	—	—	और-दो	स
	H0376		H0312	H2572	H8147	

नबो नाम के दूसरे नगर के लोग#52

34	בְּנוֹ	עֵלָם	אֲחֵר	אַלְפֵי	מֵאָתַיִם	חֲמִשִּׁים	וְאַרְבָּעָה :	ס
	पुत्र	एलाम-के	दूसरे	एक-हजार	दो-सौ	पचास	और-चार	स
			H0312	H0505	H3967	H2572	H0702	

एलाम नाम के दूसरे नगर के लोग#1,254

35	בְּנוֹ	חָרָם	שְׁלֹשׁ	מֵאוֹת	וְעֶשְׂרִים :	ס
	पुत्र	हारीम-के	तीन	सौ	और-बीस	स
		H2766	H7969	H3967	H6242	

हरीम नाम के नगर के लोग#320

36	בְּנוֹ	יְרֵחוֹ	שְׁלֹשׁ	מֵאוֹת	אַרְבָּעִים	וּחֲמִשָּׁה :	ס
	पुत्र	यरीहो-के	तीन	सौ	चालीस	और-पांच	स
		H3405	H7969	H3967	H0705	H2568	

यरीहो नगर के लोग#345

37	בְּנֵי-	לֹד	חֲדָיִד	וְאוֹנּוֹ	שִׁבְעָה	מֵאוֹת	וְעֶשְׂרִים	וְאַחַד :	ס
	पुत्र	लोद-के	हादीद	और-ओनो	सात	सौ	और-बीस	और-एक	स
		H3850	H2307	H0207	H7651	H3967	H6242	H0259	

लोद, हादीद और ओनो नाम के नगरों के लोग#721

38	בְּנוֹ	סְנָאָה	שְׁלֹשָׁת	אַלְפִים	תְּשַׁע	מֵאוֹת	וּשְׁלֹשִׁים :	פ
	पुत्र	सनाह-के	तीन	हजार	नौ	सौ	और-तीस	फ
		H5570	H7969	H0505	H8672	H3967	H7970	

सना नाम के नगर के लोग#3,930

39	חֲכֹהֲנִים	בְּנוֹ	יְדַעְיָהּ	לְבֵית	יֵשׁוּעַ	תְּשַׁע	מֵאוֹת	וּשְׁלֹשָׁה :	ס
	याजक	पुत्र	यदायाह-के	घराने-के	येशूआ	नौ	सौ	और-तीन	स
	H3548		H3048		H3442	H8672	H3967	H7969	

याजकों की सूची: यदायाह के वंशज येशू के परिवार से#973

40	בְּנוֹ	אֲמֵר	אַלְפֵי	חֲמִשִּׁים	וּשְׁנָיִם :	ס
	पुत्र	इम्मेर-के	एक-हजार	बावन	और-दो	स
		H0564	H0505	H2572	H8147	

इम्मेर के वंशज#1,052

41	בְּנֵי פִשְׁחָהוּר	אֶלֶף	מֵאָתוּם	אַרְבָּעִים	וְשֶׁבַע:	ס
	पशहूर-के पुत्र	एक-हजार	दो-सौ	चालीस	और-सात	स
	H6583	H0505	H3967	H0705	H7651	

पशहूर के वंशज#1,247

42	בְּנֵי חָרִים	אֶלֶף	שֶׁבַע	עֶשְׂרִים	פ
	हारीम-के पुत्र	एक-हजार	और-सात	और-दस	प
	H2766	H0505	H7651	H6240	

हारीम के वंशज#117

43	הַלְוִיִּם	בְּנֵי-יֵשׁוּעַ	לְקַדְמִיאֵל	לְבָנֵי	לְהוֹדָוָה	שֶׁבַעִים	וְאַרְבָּעָה:	ס
	लेवीय	पुत्र	कद्मीएल-के	और-पुत्रों-के	होदव्याह-के	सत्तर	और-चार	स
	H3881	H3442	H6934		H1937	H7657	H0702	

लेवी परिवार समूह के लोगों की सूची: येशू के वंशज कद्मीएल के द्वारा होदवा के परिवार से#74

44	הַמְשֻׁרָרִים	בְּנֵי	אֶסָף	מֵאָה	אַרְבָּעִים	וְשִׁמְנָה:	ס
	गायक	पुत्र	आसाप-के	एक-सौ	चालीस	और-आठ	स
	H7891		H0623	H3967	H0705	H8083	

गायकों की सूची: आसाप के वंशज#148

45	הַשְּׂעָרִים	בְּנֵי-שְׁלֹום	בְּנֵי-אֶטֶר	בְּנֵי-טַלְמוֹן	בְּנֵי-עֲקֹוב	בְּנֵי-חַטִּיטָא	בְּנֵי
	H7778	H7967	H0333	H2929	H6126	H2410	

ס	וְשִׁמְנָה:	שְׁלֹשִׁים	מֵאָה	שְׁבַע
ס	और-आठ	तीस	—	—
	H8083	H7970	H3967	H7630

द्वारपालों की सूची: शल्लूम, आतेर, तल्मोन, अक्कूब, हतीता और शोबै के वंशज#138

46	הַנְּתִינִים	בְּנֵי-צַחָא	בְּנֵי-חַשְׁפָא	בְּנֵי-טַבְּעוֹת:
	नतीनीम	पुत्र	हसूपा-के	तब्बाओत-के
	H5411	H6727	H2817	H2884

मन्दिर के सेवकों की सूची: सीहा, हसूपा और तब्बाओत की सन्तानें,

47	בְּנֵי-קִירוֹס	בְּנֵי-סִיעָא	בְּנֵי-פָדוֹן:
	केरोस-के पुत्र	सीआहा-के पुत्र	पादोन-के पुत्र
	H7026	H5517	H6303

केरोस, सीआ और पादोन की सन्तानें,

48	בְּנֵי-לְבָנָה	בְּנֵי-חֲגָבָה	בְּנֵי-שְׁלֹמִי:
	लबाना-के पुत्र	हगाबाह-के पुत्र	शल्लै-के पुत्र
	H3838		H8014

लबाना, हगाबा और शल्लै के वंशज,

49	בְּנֵי-חֲנָן	בְּנֵי-גִדְלָה	בְּנֵי-גַחְר:
	हानान-के पुत्र	गिदेल-के पुत्र	गहर-के पुत्र
	H2605	H1435	H1515

हानान, गिदेल, गहर के वंशज,

50	בְּנֵי-רְאָיָה	בְּנֵי-רָצִין	בְּנֵי-נְקוּדָא:
	रआयाह-के पुत्र	रसीन-के पुत्र	नकोदा-के पुत्र
	H7211	H7526	H5353

61	וְאֵלֶּה	הָעוֹלָיִם	מְלַחֲמֵתָל	חֶרְשָׁאֲתָל	כְּרוֹב	אֲדוֹן	וְאִמֶּר	וְלֹא	יָבֵלֹוּ	לְהַגִּיד
	और-ये	जो-आए	तेल-मेलह-से	तेल-हर्शा	करुब	अद्दीन	और-इम्मेर	परन्तु-नहीं	वे-कर-सके	बताना
	H0428	H5927	H8528	H8521	H3743	H0114	H0564	H3808	H3201	H5046
	בֵּית־	אֲבוֹתָם	וְזֶרְעָם	אֵם	מִיִּשְׂרָאֵל	הֵם:	וֵע			
	घराना	अपने-पिताओं-का	और-न-अपनी-वंशावली	कि	इसाएल-के	वे				
		H0001	H2233		H3478	H1992				

यह उन लोगों की एक सूची है जो तेलमेलह, तेलहर्शा, करुब अद्दीन तथा इम्मेर नाम के नगरों से यरूशलेम आये थे। किन्तु ये लोग यह प्रमाणित नहीं कर सके कि उनके परिवार वास्तव में इस्राएल के लोगों से सम्बन्धित थे:

62	בְּנֵי־	דְּלָיָה	בְּנֵי־	טוֹבְיָה	בְּנֵי	נְקוּדָא	שָׁח	מֵאוֹת	וְאַרְבָּעִים	וּשְׁנָיִם:
	पुत्र	दलायाह-के	पुत्र	टोबियाह-के	पुत्र	नकोदा-के	छह	सौ	और-चालीस	और-दो
		H1806		H2900		H5353	H8337	H3967	H0705	H8147

दलायाह, तोबियाह और नेकोदा के वंशज थे#642

63	וּמִן־	הַכְּהֹנִים	בְּנֵי	חַבְיָה	בְּנֵי	הַקּוֹץ	בְּנֵי	בְּרוּלִי	אֲשֶׁר	לְקַח
	और	याजकों-में-से	पुत्र	हबय्याह-के	पुत्र	हक्कोस-के	पुत्र	बर्जिल्लै-के	जिसने	लिया
		H3548		H2252		H6976		H1271	H3947	
	מִבְּנוֹת	בְּרוּלִי	הַגִּלְעָדִי	אִשָּׁה	וַיְקָרָא	עַל־	שְׁמֵם:			
	बेटियों-में-से	बर्जिल्लै	गिलादी	पत्नी	और-पुकारा-गया	से	उनके-नाम			
		H1271	H1569	H0802	H7121		H8034			

यह एक उनकी सूची है जो याजक थे। ये वे लोग थे जो यह प्रमाणित नहीं कर सके थे कि उनके पूर्वज वास्तव में इस्राएल के लोगों के वंशज थे। होबायाह, हक्कोस और बर्जिल्लै के वंशज (बर्जिल्लै वह व्यक्ति था जिस ने गिलाद निवासी बर्जिल्लै की एक पुत्री से विवाह किया था। इसीलिए उसे यह नाम दिया गया था।)

64	אֵלֶּה	בְּקִשּׁוֹ	כְּתָבָם	הַמְתִּיחֵשִׁים	וְלֹא	נִמְצָא	וַיִּזְאָלוּ	מִן־
	इन्होंने	ढूँढा	अपना-लेखा	वंशावली-में-नाम-लिखे-हुए	परन्तु-नहीं	मिला	इसलिए-अशुद्ध-ठहराए-गए	से
	H0428	H1245	H3791	H3187	H3808	H4672	H1351	
	הַכְּהֹנָה:							
	याजकपद							
	H3550							

जिन लोगों ने अपने परिवारों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को खोजा और वे उन्हें पा नहीं सके, उनका नाम याजकों की इस सूची में नहीं जोड़ा जा सका। वे शुद्ध नहीं थे सो याजक नहीं बन सकते थे।

65	וַיִּאמֶר	הַתְּרַשְׁתָּא	לָהֶם	אֲשֶׁר	לֹא־	יֵאָכְלוּ	מִקְדָּשׁ	עַד	עַמּוּד	הַכְּהֵן
	और-कहा	राज्यपाल-ने	उनसे	कि	नहीं	वे-खाएं	से	जब-तक	पूछ-सके	याजक
	H0559	H8660		H3808	H398	H6944		H5704	H5975	H3548
	לְאֻרִים	וְתוּמִים:								
	ऊरीम-से	और-तुम्मीम								
	H0224	H8550								

सो राज्यपाल ने उन्हें एक आदेश दिया जिसके तहत वे किसी भी अति पवित्र भोजन को नहीं खा सकते थे। उस भोजन में से वे उस समय तक कुछ भी नहीं खा सकते थे जब तक ऊरीम और तुम्मीम का उपयोग करने वाला महायाजक इस बारे में परमेश्वर की अनुमति न ले ले।

66	כָּל־	הַקְּהָל	כְּאַחַד	אַרְבַּע	רְבּוּא	אַלְפִים	שְׁלֹשׁ־	מֵאוֹת	וּשְׁשִׁים:
	सम्पूर्ण	सभा	एक-साथ	चार	दस-हजार	दो-हजार	तीन	सौ	और-साठ
	H3605	H6951	H0259	H0702	H7239	H0505	H7969	H3967	H8346

उस समूचे समूह में लोगों की संख्या 42,360 थी और उनके पास 7,337 दास और दासियाँ थीं, उनके पास 245 गायक और गायिकाएँ थीं।

67	מְלִבְרַע अलग-से	עֲבָדֵיהֶם उनके-दास	וְאִמְהָתֵיהֶם और-दासियाँ	אֵלֶּה ये	שִׁבְעָת सात	אַלְפִים हजार	שָׁלֹשׁ तीन	מֵאוֹת सौ	שְׁלֹשִׁים तीस	וְשִׁבְעָה और-सात
	H0905	H5650	H0519	H0428	H7651	H0505	H7969	H3967	H7970	H7651

וְלָהֶם और-उनके-पास-थे	מְשַׁרְרִים गायक	וּמְשַׁרְרֹת और-गायिकाएँ	מֵאוֹת दो-सौ	וְאַרְבָּעִים और-चालीस	וְחַמְשָׁה और-पाँच
H7891	H7891	H7891	H3967	H0705	H2568

उस समूचे समूह में लोगों की संख्या 42,360 थी और उनके पास 7,337 दास और दासियाँ थीं, उनके पास 245 गायक और गायिकाएँ थीं।

68
ס
ס

उनके पास 736 घोड़े थे, 245 खच्चर, 435 ऊँट तथा 6,720 गधे थे।

69	גְּמָלִים —	אַרְבַּע —	מֵאוֹת —	שְׁלֹשִׁים तीस	וְחַמְשָׁה और-पाँच	ס 0	חֲמִשָּׁה और-गधे	אַלְפִים हजार	שִׁבְעָה सात	מֵאוֹת सौ	וְעֶשְׂרִים और-बीस
	H1581	H0702	H3967	H7970	H2568	H2543	H8337	H0505	H7651	H3967	H6242

उनके पास 736 घोड़े थे, 245 खच्चर, 435 ऊँट तथा 6,720 गधे थे।

70	וּמִקְצָת और-कुछ	רֵאשִׁי मुखियों-ने	הָאֲבוֹת पितृभवनों-के	נָתַן दिया	לְמַלְאָכָה काम-के-लिए	הַתְּשָׁתָה राज्यपाल-ने	נָתַן दिया	לְאוֹזָר खजाने-में	זָהָב सोना	דְּרָכְמַיִם द्रक्मे
	H7117	H0001	H5414	H4399	H8660	H5414	H0214	H2091	H1871	H1871

אֶלֶף एक-हजार	מִזְרְקוֹת कटोरे	חַמְשָׁים पचास	כַּתְנוֹת और-वस्त्र	כֹּהֲנִים याजकों-के	שְׁלֹשִׁים तीस	וְחַמְשָׁה और-पाँच	מֵאוֹת सौ
H0505	H4219	H2572	H3801	H3548	H7970	H2568	H3967

परिवार के कुछ मुखियाओं ने उस काम को बढ़ावा देने के लिए धन दिया था। राज्यपाल के द्वारा निर्माण—कोष में उन्निस पौंड सोना दिया गया था। उसने याजकों के लिये पचास कटोरे और पाँच सौ तीस जोड़ी कपड़े भी दिये थे।

71	וּמִרְאשֵׁי और-कुछ-मुखियों-ने	הָאֲבוֹת पितृभवनों-के	נָתַן दिया	לְאוֹזָר खजाने-में	הַמְּלָאָכָה काम-के	זָהָב सोना	דְּרָכְמוֹנִים द्रक्मे	שְׁתֵּי दो	רַבּוֹת दस-हजार
	H0001	H5414	H0214	H4399	H2091	H1871	H8147	H7239	H7239

וְכֶסֶף और-चाँदी	מָנִים माने	אַלְפִים दो-हजार	וּמֵאוֹת और-दो-सौ
H3701	H4488	H0505	H3967

परिवार के मुखियाओं ने तीन सौ पचहत्तर पौंड सोना उस काम को बढ़ावा देने के लिये निर्माण कोष में दिया और दो हजार दो सौ मीना चाँदी उनके द्वारा भी दी गयी।

72	וְאֹזָר जो	נָתַן दिया	שְׁשָׁרִית शेष	הָעָם लोगों-ने	זָהָב सोना	דְּרָכְמוֹנִים द्रक्मे	שְׁתֵּי दो	רַבּוֹת दस-हजार	וְכֶסֶף और-चाँदी	מָנִים माने	אַלְפִים दो-हजार
	H5414	H7611	H2091	H1871	H8147	H7239	H3701	H4488	H0505		

וְכַתְנוֹת और-वस्त्र	כֹּהֲנִים याजकों-के	שָׁשִׁים साठ	וְשִׁבְעָה और-सात
H3801	H3548	H8346	H7651

दूसरे लोगों ने कुल मिला कर बीस हजार दर्कमोन सोना उस काम को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कोष को दिया। उन्होंने दो हजार मीना चाँदी और याजकों के लिए सड़सठ जोड़े कपड़े भी दिये।

73	וַיִּשְׁבּוּ तो-बसे	הַכֹּהֲנִים याजक	וְהַלְוִיִּם और-लेवीय	וְהַשְּׂרָרִים और-द्वारपाल	וְהַמְשַׁרְרִים और-गायक	וּמִן और-कुछ	הָעָם लोग	וְהַנְּתִיבִים और-नतीनीम	וְכָל- और-सब	יִשְׂרָאֵל इस्राएल
	H3427	H3548	H3881	H7778	H7891	H1871	H8147	H7239	H3605	H3478

בְּעָרֵיהֶם अपने-नगरों-में	וַיָּבֵעַ और-जब-आया	הַחֹדֶשׁ महीना	הַשְּׁבִיעִי सातवाँ	וּבְנֵי और-पुत्र	יִשְׂרָאֵל इस्राएल-के	בְּעָרֵיהֶם अपने-नगरों-में
H5060	H2320	H7637	H3478	H3478	H3478	H3478

इस प्रकार याजक लेवी परिवार समूह के लोग, गायक और मन्दिर के सेवक अपने—अपने नगरों में बस गये और इस्राएल के दूसरे लोग भी अपने—अपने नगरों में रहने लगे और फिर साल के सातवें महीने तक इस्राएल के सभी लोग अपने—अपने नगरों में बस गये।